

सस्टेनेबिलिटी बांड दिशानिर्देश (Sustainability Bond Guidelines)

जून 2021

अस्वीकरण: "संदेह से बचने के लिए, [सस्टेनेबिलिटी बाँड दिशानिर्देशों \(Sustainability Bond Guidelines\)](#) का हिन्दी [भाषा संस्करण](#) आईसीएमए की वेबसाइट के स्थायी वित्त अनुभाग में प्रकाशित किया गया है। दस्तावेज़ का आधिकारिक संस्करण है। यह अनुवाद केवल सामान्य संदर्भ के लिए प्रदान किया गया है।"

परिचय

[ग्रीन बाँड](#) सिद्धांत (GBP), [सोशल बाँड प्रिंसिपल्स](#) (SBP), [सस्टेनेबिलिटी बाँड गाइडलाइन्स](#) (SBG) और [सस्टेनेबिलिटी-लिंक्ड बाँड प्रिंसिपल्स के साथ](#) (SLBP) सिद्धांतों के शासन के तहत प्रकाशित होते हैं। सिद्धांत स्वैच्छिक ढांचे का एक संग्रह है, जिसमें कहा गया मिशन और भूमिका को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण के साथ वैश्विक ऋण पूंजी बाजार पर्यावरण और सामाजिक स्थिरता की दिशा में प्रगति के वित्तपोषण में खेल सकते हैं।

सिद्धांत वैश्विक दिशानिर्देशों और सिफारिशों के माध्यम से सामाजिक और/या पर्यावरणीय उद्देश्यों की पूर्ति करने वाले बांड जारी करते समय सर्वोत्तम प्रथाओं की रूपरेखा तैयार करते हैं, जो पारदर्शिता और प्रकटीकरण को बढ़ावा देते हैं, जिससे बाजार की अखंडता को

बढ़ोतरी मिलती है। सिद्धांत वित्तीय बाजार सहभागियों के बीच पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव के महत्व के बारे में जागरूकता भी बढ़ाते हैं, जिसका उद्देश्य अंततः सतत विकास का समर्थन करने के लिए अधिक पूंजी आकर्षित करना है।

[ग्रीन बाँड](#) सिद्धांत (GBP), [सोशल बाँड प्रिंसिपल्स](#) (SBP), दोनों से जुड़े बांडों के लिए एक बाजार विकसित हुआ है जो लेन-देन आय उपयोग बांड बाजार के निरंतर विकास को दर्शाते हैं। ऐसे लेनदेन के विशिष्ट उदाहरण आईसीएमए की वेबसाइट के [स्थायी वित्त अनुभाग](#) में पाए जा सकते हैं

इन दिशानिर्देशों को इस संदर्भ में सिद्धांतों की प्रासंगिकता की पुष्टि करने और स्थिरता बांड बाजार में पारदर्शिता और प्रकटीकरण पर उनके मार्गदर्शन को लागू करने की सुविधा के लिए प्रकाशित किया गया है। [ग्रीन बाँड](#) सिद्धांत (GBP), [सोशल बाँड प्रिंसिपल्स](#) (SBP) के सामान्य चार मुख्य घटक (अर्थात् आय का उपयोग, परियोजना मूल्यांकन और चयन के लिए प्रक्रिया, आय और रिपोर्टिंग का प्रबंधन) और बाँड फ्रेमवर्क पर उनकी प्रमुख सिफारिशें और बाहरी समीक्षा का उपयोग इसलिए भी सस्टेनेबिलिटी बाँड पर लागू होते हैं।

सिद्धांत ऐसे दृष्टिकोण प्रदान करते हैं जो जारीकर्ता स्तर की स्थिरता प्रतिबद्धताओं को दर्शाते हैं, जो आय के उपयोग पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पूरक या विकल्प प्रदान कर सकते हैं। इस तरह की प्रतिबद्धताओं को सस्टेनेबिलिटी-लिंक्ड बाँड्स के साथ-साथ समर्पित जारीकर्ता रणनीतियों और प्रकटीकरण के माध्यम से व्यक्त किया जा सकता है जैसा कि [जलवायु संक्रमण वित्त हैंडबुक द्वारा अनुशंसित है](#) (Climate Transition Finance handbook) पेरिस-संरक्षित संक्रमण योजनाओं को संप्रेषित करते समय। सिद्धांतों द्वारा कवर किए गए उत्पादों और संबंधित मार्गदर्शन का एक उदाहरण परिशिष्ट 1 में दर्शाया गया है।

2021 संस्करण जीबीपी(GBP) और एसबीपी (SBP) के 2021 संस्करणों के अनुरूप है।

स्थिरता बांड परिभाषा

सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड किसी भी प्रकार के बॉन्ड इंस्ट्रूमेंट हैं जहां आय या समकक्ष राशि विशेष रूप से हरित और सामाजिक, दोनों परियोजनाओं के संयोजन को वित्त या पुनर्वित्त करने के लिए उपयोग होती है

। सस्टेनेबिलिटी बांड जीबीपी (GBP) और एसबीपी (SBP) दोनों के चार मुख्य घटकों के साथ संरेखित होते हैं, जिनमें से एक विशेष रूप से अंतर्निहित ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए प्रासंगिक होता है और बाद वाला अंतर्निहित सामाजिक परियोजनाओं के लिए।

यह समझा जाता है कि कुछ सामाजिक परियोजनाओं के पर्यावरणीय सह-लाभ भी हो सकते हैं, और कुछ हरित परियोजनाओं के सामाजिक सह-लाभ हो सकते हैं। ग्रीन बॉन्ड, सोशल बॉन्ड, या सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड के रूप में आय बांड के उपयोग का वर्गीकरण जारीकर्ता द्वारा अंतर्निहित परियोजनाओं के लिए अपने प्राथमिक उद्देश्यों के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए।

यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि सस्टेनेबिलिटी बांड को उन बांडों के साथ बदलने योग्य नहीं माना जाना चाहिए जो सिद्धांतों के चार मुख्य घटकों के साथ संरेखित नहीं हैं। इस संस्करण से पहले जारी किए गए पहले ग्रीन और सोशल बॉन्ड गाइडेंस के तहत जारी किए गए बॉन्ड को एसबीपी के अनुरूप माना जाता है।

अंत में, जहां जारीकर्ता पेरिस समझौते के लक्ष्यों के साथ एक शुद्ध शून्य उत्सर्जन रणनीति को लागू करने की दिशा में परियोजनाओं को वित्तपोषित करना चाहते हैं, जारीकर्ता स्तर के खुलासे और जलवायु संक्रमण रणनीतियों पर मार्गदर्शन [जलवायु संक्रमण वित्त पुस्तिका \(Climate Transition Finance handbook\) से मांगा जा सकता है](#)। .

संसाधन केन्द्र

[फाइनेंस सेक्शन](#) में अनुशंसित टेम्प्लेट और ग्रीन, सोशल और सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड संसाधन पाए जा सकते हैं आईसीएमए की वेबसाइट के ऊपर दिए गए लिंक पर दिए गए निर्देशों का पालन करके संसाधन केंद्र पर बाजार की जानकारी के लिए पूर्ण टेम्प्लेट ऑनलाइन प्रकाशित किए जा सकते हैं।

नोट 1

जीबीपी(GBP) और एसबीपी (SBP) के परिशिष्ट 1 में संदर्भित चार प्रकार के ग्रीन बॉन्ड और सोशल बॉन्ड, सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड पर भी लागू होंगे, जब ग्रीन और सोशल प्रोजेक्ट्स को मिला दिया जाता है।

नोट 2

यह माना जाता है कि स्थायी विषयों के साथ बांड का एक बाजार है, जिसमें स्थायी विकास लक्ष्यों ("एसडीजी") से जुड़े हुए, कुछ मामलों में संगठनों द्वारा जारी किए गए हैं जो मुख्य रूप से या पूरी तरह से स्थायी गतिविधियों में शामिल हैं, लेकिन उनके बांड संरेखित नहीं हो सकते हैं सिद्धांतों के चार मुख्य घटकों के लिए। ऐसे मामलों में, निवेशकों को तदनुसार सूचित करने की आवश्यकता होगी और इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड या एसडीजी संदर्भ द्वारा जीबीपी या एसबीपी विशेषताओं का उल्लेख न किया जाए। इन जारी करने वाली संस्थाओं को इस तरह की मौजूदा स्थिरता, एसडीजी या अन्यथा थीम वाले बॉन्ड के लिए जीबीपी और एसबीपी (जैसे रिपोर्टिंग के लिए) के प्रासंगिक सर्वोत्तम अभ्यास को अपनाने और सिद्धांतों के साथ भविष्य के मुद्दों को संरेखित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के लिए जीबीपी और एसबीपी का मानचित्रण अब उपलब्ध है और इसका उद्देश्य संदर्भ का एक व्यापक ढांचा प्रदान करना है जिसके द्वारा जारीकर्ता, निवेशक और बाजार सहभागी किसी दिए गए हरित, सामाजिक या स्थिरता बांड के वित्तपोषण उद्देश्यों का मूल्यांकन एसडीजी के अनुकूल कर सकते हैं। यह आईसीएमए की वेबसाइट का [स्थायी वित्त अनुभाग](#) में पाया जा सकता है

नोट 3:

यह माना जाता है कि जारीकर्ता अपने सस्टेनेबिलिटी बांड को एसबीजी (SBG) और एसएलबीपी (SBLP) दोनों के साथ संरेखित करना चाह सकते हैं। संदेह से बचने के लिए, ऐसा दृष्टिकोण जारीकर्ताओं के विवेक पर रहता है और इसकी न तो अनुशंसा की जाती है और न ही इसे हतोत्साहित किया जाता है।

अस्वीकरण

सस्टेनेबिलिटी बाँड दिशानिर्देश स्वैच्छिक प्रक्रिया दिशानिर्देश प्रदान करते हैं जो न तो प्रतिभूतियों को खरीदने या बेचने का प्रस्ताव बनाते हैं और न ही सस्टेनेबिलिटी बाँड या किसी अन्य प्रतिभूतियों के संबंध में किसी भी रूप (कर, कानूनी, पर्यावरण, लेखा या नियामक) की विशिष्ट सलाह का गठन करते हैं। सस्टेनेबिलिटी बाँड दिशानिर्देश किसी भी व्यक्ति, सार्वजनिक या निजी में कोई अधिकार या दायित्व नहीं बनाते हैं। जारीकर्ता सस्टेनेबिलिटी बाँड दिशानिर्देशों को स्वेच्छा से और स्वतंत्र रूप से अपनाते और लागू करते हैं, बिना सस्टेनेबिलिटी बाँड दिशानिर्देशों पर निर्भर या सहारा लिए, और सस्टेनेबिलिटी बाँड जारी करने के निर्णय के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। यदि जारीकर्ता सस्टेनेबिलिटी बांड के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं का पालन नहीं करते हैं और परिणामी शुद्ध आय का उपयोग नहीं करते हैं, तो सस्टेनेबिलिटी बाँड के अंडरराइटर जिम्मेदार नहीं हैं। यदि किसी भी लागू कानूनों, विधियों और विनियमों और सस्टेनेबिलिटी बाँड दिशानिर्देशों में निर्धारित दिशानिर्देशों के बीच कोई विरोध है, तो संबंधित स्थानीय कानून, कानून और विनियम मान्य होंगे।

परिशिष्ट 1

सिद्धांत इन्फोग्राफिक (PRINCIPLES INFOGRAPIC)



* जीबीपी, एसबीपी और एसबीजी के तहत, शुद्ध बांड आय के बराबर राशि पात्र परियोजनाओं (आय बांड का उपयोग) के वित्तपोषण के लिए समर्पित है, जबकि एसएलबीपी के तहत, आय मुख्य रूप से पहचाने गए केपीआई की खोज में जारीकर्ता के सामान्य उद्देश्यों के लिए है और एसपीटी (सततता से जुड़े बांड/Sustainability linked bonds)। एक बांड जो एसएलबी और आय का उपयोग सुविधाओं को जोड़ता है, दोनों प्रकार के बांडों के लिए मार्गदर्शन लागू करना चाहिए।